

भा. कृ. अनु. प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में, हिंदी सप्ताह के अंतर्गत 16 सितम्बर 2019 को " हिन्दी विशेष दिवस " का आयोजन किया गया।

भा. कृ. अनु. प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में, में 14 से 20 सितम्बर, 2019 तक हिंदी सप्ताह मनाया जा रहा है, उसी के अंतर्गत आज 16 सितम्बर, 2019 को “हिंदी विशेष दिवस” का आयोजन किया गया। “हिंदी विशेष दिवस” कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, श्री ईश्वरचंद्र मिश्र, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बेंगलुरु का तथा सभागृह में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का स्वागत किया गया। इसके बाद, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, श्री ईश्वरचंद्र मिश्र, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, बेंगलुरु, ब्यूरो के प्रभारी निदेशक एवं जननद्रव्य संरक्षण और उपयोगिता विभाग अध्यक्ष डॉ. एन. बक्तवत्सलम और ब्यूरो के सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा द्वीप प्रज्वलित करके “हिंदी विशेष दिवस” की शुरुआत हुई।

तदोपरांत, श्री ईश्वरचंद्र मिश्र, संयुक्त निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, बेंगलुरु ने “केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में राजभाषा की भूमिका और राजभाषा के व्यवहारिक उपयोगिता” विषय पर अति महत्वपूर्ण जानकारी “हिंदी विशेष दिवस” कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों को दी।

ब्यूरो के प्रभारी निदेशक एवं जननद्रव्य संरक्षण और उपयोगिता विभाग अध्यक्ष डॉ. एन. बक्तवत्सलम ने ब्यूरो की राजभाषा कार्यान्वयन समिति को “हिंदी विशेष दिवस” के सफल आयोजन पर बधाई दी और ब्यूरो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को धन्यवाद दिया कि, उन्होंने “हिंदी विशेष दिवस” कार्यक्रम में भाग लेकर इसको सफल बनाया।

डॉ. ओमप्रकाश नाविक, वैज्ञानिक ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा इस समारोह का संचालन श्री सतेंद्र कुमार, मुख्य तकनीकी अधिकारी ने किया।

भा. कृ. अनु. प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में "हिंदी विशेष दिवस" का आयोजन





भा. कृ. अनु. प.- राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलूरु में “हिंदी विशेष दिवस” का आयोजन